



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 612]

No. 612]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2001/अग्राहायण 16, 1923

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2001/AGRAHAYANA 16, 1923

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2001

सा. का. नि. 885(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लघु पत्तन तलमार्जन और सर्वेक्षण सगठन (सर्वेक्षण स्कध) (वर्ग III और IV पद) भर्ती नियम, 1967 को, जहां तक उनका संबंध क्षेत्रीय सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय लघु पत्तन तलमार्जन और सर्वेक्षण सगठन में क्षेत्रीय सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लघु पत्तन, सर्वेक्षण सगठन (क्षेत्रीय सहायक) पद भर्ती नियम, 2001 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,
या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह
किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. प्रादेशिक सेना/ संकेत इकाई - क्षेत्रीय सहायक, यदि ऐसा अपेक्षित हो, तो प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56) और उसके अधीन बने नियमों में यथा उपबंधित प्रादेशिक सेना/ संकेत इकाईयों में सेवा करने के दायी होंगे ।

6. शिथिल करने की शक्ति .

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
क्षेत्रीय सहायक श्रेणी- I	11 * (2001) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	5500-175-9000/- रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा ।	<p>प्रोन्नति :- क्षेत्रीय सहायक श्रेणी II में से जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है । प्रतिनियुक्ति/आमेलन :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या नौसेना जलराशिके संगठन के ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) 4500-7000/- रु. के वेतनमान वाले पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की है, और</p> <p>(ख) (i) जिनके पास मैट्रिक की शैक्षिक अर्हताएं हैं, और</p> <p>(ii) जो आई.टी.आई. सर्वेक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो या ऐसे भूतपूर्व नौसेना कार्मिक जिनके पास सर्वेक्षण रिकार्डर II के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा या उच्चतर अर्हताएं हो ।</p>
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें होंगे :-	लागू नहीं होता
1. प्रशासनिक अधिकारी, अंडमान लक्षद्वीप हारबर वर्क्स - अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ जलराशिक सर्वेक्षण, लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन - सदस्य 3. उस क्षेत्र में अनुभव रखने वाला केन्द्रीय सरकार का राजपत्रित अधिकारी - सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
क्षेत्रीय सहायक श्रेणी II	10 * (2001) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' असज्जित अननुसूचित	4500-125- 7000/- रु.	चयन-मह- ज्योति	लागू नहीं होता	नहीं
8		9			10	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता			दो वर्ष	

11	12
<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा ।</p>	<p>प्रोन्नति :- क्षेत्रीय सहायक श्रेणी III म से जिन्हो, उस श्रेणी मे पाच वर्ष सेवा की है । प्रतिनियुक्ति/आमेलन :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या नौसेना जलराशि सगठन के ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या</p> <p>(ii) जिन्होने 4000-6000/- रु या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और</p> <p>(ख) (i) जिनके पास मैट्रिक या समतुल्य की शैक्षिक अर्हता है, और</p> <p>(ii) जिन्होने आई टी आई से सर्वेक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो या सर्वेक्षण रिकार्डर के रूप मे तीन वर्ष का अनुभव या सिविल इंजीनियरी मे डिप्लोमा या उच्चतर अर्हताए सहित भूतपूर्व नौसेना कार्मिक ।</p>
13	14
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमे होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 प्रशासनिक अधिकारी, अडमान लक्षद्वीप हारबर वर्क्स - अध्यक्ष 2 ज्येष्ठ जलराशिक सर्वेक्षण, लघु पत्तन सर्वेक्षण सगठन - सदस्य 4 उस क्षेत्र मे अनुभव रखने वाला केन्द्रीय सरकार का राजपत्रित अधिकारी - सदस्य 	<p>लागू नहीं होता</p>

1	2	3	4	5	6	7
क्षेत्रीय सहायक श्रेणी-III	10 * (2001) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	4000-100- 6000/- रू.	योग्यता के आधार पर चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं	नहीं

8	9	10
(i) मैट्रिक या समतुल्य ; (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए या सर्वेक्षण स्कार्डर II के रूप में तीन वर्ष का अनुभव या सिविल इंजीनियरी डिप्लोमा सहित ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
100 % सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता
13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[क्र. सं. ग.-12012 2 99-पीई-II]

आप क्र. जन, संयुक्त मन्त्रि

टिप्पण- मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र में परिवहन में परिवहन और विमानन मंत्रालय, परिवहन और पोत परिवहन (परिवहन स्कंध) में सा.का.नि.सं. 366 तारीख 4.3.1967 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सा.का.नि.सं.तारीख 2.9.1968 द्वारा अंतिमः अधिसूचित किए गए ।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2001

G.S.R. 885(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Minor Ports Dredging and Survey Organisation (Survey Wing) (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1967, in so far as they relate to the post of Field Assistant , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Field Assistants, in the Ministry of Shipping, Minor Ports Survey Organisation, namely:-

1. Short title and commencement: (1) These Rules may be called the Minor Ports Survey Organisation (Field Assistants) Posts Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay. - The number of posts, their Classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriages is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Service under Territorial Army/Signal unit. - The Field Assistants shall, if so required, be liable to serve in the Territorial Army/Signal units as provided in the Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948) and the rules made thereunder.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	Number of post.	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or selection -cum-seniority or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
1. Field Assistant, Grade I	11* (2001) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group C Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.5500-175-9000	Selection-cum-seniority	Not applicable.

Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Pension Rules 1972	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made and percentage of the posts to be filled by various methods
7.	8	9	10	11
No	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By Promotion failing which by deputation/absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made.	If, a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
<p><u>Promotion</u> : From amongst Field Assistant Grade II with six years regular service in the grade.</p> <p><u>Deputation / Absorption</u>: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Naval Hydrographic Organisation --</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis, or (ii) with 6 years' regular service in the post in the scale of Rs. 4500-7000, and</p> <p>(b) (i) possessing educational qualifications of Matric, and (ii) should have passed Surveyor course from ITI or Ex-Navy personnel with survey Recorder-II with 3 years experience or diploma in Civil Engineering or higher qualifications.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <p>1. Administrative Officer, Andaman Lakshadweep Harbour Works - Chairman.</p> <p>2. Senior Hydrographic Surveyor, Minor Ports Survey Organisation - Member</p> <p>3. A Gazetted Officer of the Central Government having experience in the field - Member.</p>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
2. Field Assistant, Grade II	10*(2001) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group C Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.4500-125-7000	Selection-cum-seniority	Not applicable.

7.	8.	9.	10.	11.
No	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation/absorption.

12.	13.	14.
<p><u>Promotion:</u> From amongst Field Assistant Grade III with five years regular service in the grade.</p> <p><u>Deputation/absorption:</u> Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Naval Hydrographic Organisation --</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis, or</p> <p>(ii) with 3 years' regular service in the post in the scale of Rs. 4000-6000 or equivalent, and</p> <p>(b) (i) possessing educational qualification of Matric or equivalent, and</p> <p>(ii) should have passed Surveyor course from ITI or Ex-Navy personnel with survey Recorder-II with 3 years' experience or diploma in Civil Engineering or higher qualifications.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <p>1. Administrative Officer, Andaman Lakshadweep Harbour Works - Chairman.</p> <p>2. Senior Hydrographic Surveyor, Minor Ports Survey Organisation - Member</p> <p>3. A Gazetted Officer of the Central Government having experience in the field - Member.</p>	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
3. Field Assistant, Grade III	10*(2001) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group C Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.4000-100-6000	Selection by merit	Not exceeding 30 years

7.	8	9	10	11
No	(i) Matriculation or equivalent qualification. (ii) should have passed Surveyor Course from the Industrial Training Institute or Ex-Navy personnel with Survey Recorder II with three years experience or Diploma in Civil Engineering .	Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.

12	13	14
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

[F No. A-12018/2/99-PE-II]

R K JAIN, Jt. Secy

Note.—The Principal Recruitment Rules were published in the Gazette of India, in the Ministry of Transport & Aviation, Department of Transport & Shipping (Transport Wing). vide G.S.R.No.366 dated 4.3.67 and lastly amended vide Notification dated 29th August 1968.